

## Social Psychology

Paper V

B.A. III (Hons.)

### What is Leadership?

### नेतृत्व क्या है?

नेतृत्व एक ऐसी अंतर्व्यक्तिक अन्तः क्रिया (interpersonal interaction) की क्रिया है जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को प्रभावित करता है परन्तु किसी एक व्यक्ति का प्रभाव सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसे व्यक्ति को समूह का नेता कहा जाता है। नेतृत्व का भाव मनुष्यों एवं पशुओं दोनों के समाज में पाया जाता है। नेतृत्व के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कई परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं।

Lindgren, 1973 के,

“अनुसार समूह के ऐसे सदस्य को नेता कहा जाता है जो अपनी पसंद के अनुसार अन्य सदस्यों को व्यवहार करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डालता है।”

“A leader is a group member who influences other members to behave in ways he prefers more than they influence him.”

Lapierre and Fransworth, 1949 के अनुसार,

“नेतृत्व वह व्यवहार है जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है जितना की उन सभी व्यक्तियों का व्यवहार नेता को प्रभावित करता है।”

“Leadership is behaviour that affects the behaviour of other people more than their behaviour affects that of the leader.”

इन परिभाषाओं के विश्लेषण से नेतृत्व के महत्वपूर्ण विमाओं (dimensions) पर प्रकाश पड़ता है।

1. नेतृत्व में दो पक्ष होते हैं- एक नेता जो नेतृत्व करता है तथा दूसरा जो नेतृत्व को स्वीकार करते हैं अर्थात् अनुयायी लोग (followers)।

2. नेतृत्व की प्रक्रिया में यह दोनों पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेता अनुयायी लोगों को प्रभावित करता है तथा अनुयायी लोग भी नेता को प्रभावित करते हैं।

**निष्कर्षतः** नेतृत्व एक अंतर्व्यक्तिक अन्तः क्रिया (interpersonal interaction) है जिसमें नेता अपने अनुयायियों पर प्रभाव डालता है तथा अनुयायी अपने नेता पर प्रभाव डालते हैं।

अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि नेता का प्रभाव अनुयायी के प्रभाव से अधिक होता है। अतः इन दोनों के बीच पारस्परिक प्रभाव की मात्रा में अंतर होता है। नेता अपने इस तरह के प्रभाव के कारण ही औपचारिक प्रधान (formal head) से भी भिन्न होता है।

**Dr. Hena Hussain**

Asst. Professor

Department of Psychology

Oriental College, Patna City

WhatsApp No. – 9334067986

Email-drhenahussain@gmail.com